

AJ-1563

M. Com. (Previous) Term End Examination, 2021-22

FINANCIAL MANAGEMENT (Paper-V)

Time : 3 hours]

[Maximum Marks : 100

नोट- किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note : Attempt any five questions. All questions carry equal marks.

1. “वित्तीय प्रबंध के ‘अधिकतम लाभ’ के उद्देश्य की तुलना में ‘संपत्ति के मूल्य में अधिकतम वृद्धि का उद्देश्य उपयुक्त है।’ कारणों सहित उपर्युक्त कथन की समीक्षा कीजिए।
“The objectives of Wealth maximisation as a decision-criterion of financial Management is superior to the objective of profit maximisation.” Critically examine the above statement.
2. मोनेट लि० के प्रबंध के समक्ष दो परियोजनाएँ A तथा B विचाराधीन हैं। अन्य विवरण उपलब्ध है—

	परियोजना A	परियोजना B
लागत (रुपये में)	1,00,000	1,00,000
आर्थिक जीवन (वर्ष में)	4	6
प्रत्याय (कर के बाद तथा हास के पूर्व)–		
वर्ष 2016	50,000	10,000
वर्ष 2017	40,000	20,000
वर्ष 2018	30,000	30,000
वर्ष 2019	10,000	40,000
वर्ष 2020	—	50,000
वर्ष 2021	—	60,000

किस परियोजना का चुनाव करना चाहिए ? विनियोग पर असमायोजित प्रत्याय रीति का प्रयोग करें।

Two projects A and B are before consideration of the management of Monet Ltd. The other particulars available are :

	Project A	Project B
Cost (in Rs.)	1,00,000	1,00,000
Economic Life (In years)	4	6
Earning (after Tax and before Depreciation)		
Year 2016	50,000	10,000
Year 2017	40,000	20,000
Year 2018	30,000	30,000
Year 2019	10,000	40,000
Year 2020	—	50,000
Year 2021	—	60,000

Which project should be preferred ? Use unadjusted return on investment method.

3. “यह पूँजी खर्च निर्णय ही है जो व्यावसायिक सफलता एवं व्यावसायिक असफलता के अंतर को स्पष्ट करता है।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? अपने दृष्टिकोण को कारण से स्पष्ट करें।

[P.T.O.]

“It is the capital expenditure decision that spells the difference between the business success and business failure.” Do you agree with this statement ? Substantiate your views with reasons.

4. रामा लि० ने निम्न स्रोतों से पूँजी प्राप्त की है, उनके सामने विशिष्ट लागतों को भी दर्शाया गया है—

पूँजी के स्रोत	पुस्तक मूल्य	बाजार मूल्य	पूँजी की लागत
ऋणपत्र	4,00,000	3,80,000	5%
पूर्वाधिकार अंश	1,00,000	1,10,000	8%
सम अंश	6,00,000	12,00,000	13%
प्रतिधारित आय	2,00,000	—	9%

बाजार मूल्य भार का प्रयोग करते हुए आपको पूँजी की भारांकित औसत लागत की गणना करनी है।

Rama Ltd. has obtained capital from the following sources, the specific costs are also noted down against them :

Sources of Capital	Book Value	Market Value	Cost of Capital
Debenturs	4,00,000	3,80,000	5%
Preference Shares	1,00,000	1,10,000	8%
Equity Shares	6,00,000	12,00,000	13%
Retained Earnings	2,00,000	—	9%

You are required to calculate weighted average cost of capital using market value weights.

5. एक कंपनी की पूँजी संरचना का निर्धारण करते समय किन-किन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए ? व्याख्या कीजिए।
What factors should be kept in mind in deciding a Capital Structure of a company ? Explain.
6. बजाज लि० की बिक्री 5,00,000 रुपये है। परिवर्तनशील लागत बिक्री का 40% है। जबकि स्थायी परिचालन लागत 1,50,000 रुपये है। दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज 50,000 रुपये का है।
आप वित्तीय, संचालन तथा मिश्रित लीवरेज की गणना कीजिए और इसका प्रभाव उदाहरण सहित समझाइए। यदि बिक्री में 5% की वृद्धि होगी।
Bajaj Ltd. has sales of Rs. 5,00,000. The variable cost are 40% of sales while the fixed operating cost amounts to Rs. 1,50,000. The amount of interest on long term debts is Rs. 50,000.
You are required to calculate the financial, operating and composite leverage and illustrate its impact of sales increased by 5%.
7. भारतीय कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लाभांशों का उल्लेख कीजिए तथा एक उपक्रम की स्वस्थ लाभांश नीति को निर्धारित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए।
Mention the different types of dividend paid by companies in India and critically examine the essentials which govern the sound dividend policy of an enterprise.
8. कार्यशील पूँजी की पर्याप्तता की जाँच कैसे करेंगे ? भारतीय कंपनियों में कार्यशील पूँजी की स्थिति का वर्णन कीजिए।
How will you examine the adequacy of working capital ? Describe the position of working capital in Indian Companies.
9. एक औद्योगिक कंपनी के संबंध में निम्नलिखित आँकड़े उपलब्ध हैं—
स्कंध आवर्ति = 5 समय

सकल लाभ = बिक्री का 25%

यदि सकल लाभ ₹ 300,000 था तथा वर्ष के अंत का स्टॉक प्रारंभ के स्टॉक से ₹ 25,000 अधिक था तो वर्ष के प्रारंभ व अंत का स्टॉक ज्ञात कीजिए।

The following particulars are available in respect of an industrial company :

Stock Turnover = 5 times

Gross Profit = 25% of sales

In case the Gross Profit was ₹ 3,00,000 and closing stock was ₹ 25,000 more than opening stock, then calculate the balance of opening and closing stock.

10. सुमित ब्रदर्स अक्टूबर से दिसंबर तक की अवधि के लिए अस्थायी अधिविकर्ष की सुविधा हेतु बैंक से सम्पर्क करना चाहते हैं। इन तीन माह की अवधि में फर्म मुख्यतः स्कंध हेतु निर्माण करेगी। प्रत्येक माह के अंत में फर्म की अधिविकर्ष सुविधा की आवश्यकता को दर्शाते हुए अग्र आँकड़ों से उक्त अवधि के लिए आपको रोकड़ बजट बनाना है—

	बिक्री (रुपये)	क्रय (रुपये)	पारिश्रमिक (रुपये)
अगस्त	3,60,000	2,49,600	24,000
सितंबर	3,84,000	2,88,000	28,000
अक्टूबर	2,16,000	4,86,600	22,000
नवंबर	3,84,000	4,92,000	20,000
दिसंबर	2,52,000	5,36,000	30,000

- (A) उधार बिक्री का 50% बिक्री के बाद वाले माह में और शेष 50% बाद के दूसरे माह में वसूल होता है।
 (B) लेनदारों का भुगतान क्रय के बाद वाले माह में होता है।
 (C) 1 अक्टूबर के लिए अनुमानित रोकड़ बैंक में 50,000 रुपये है।

Sumit Brothers wish to approach the bankers for temporary overdraft facility for the period from October to December. During the period of these three months, the firm will be manufacturing mostly for stock. You are required to prepare a cash budget for the above period from the following data indicating the overdrafts facility required by the firm at the end of each month :

	Sales (Rs)	Purchases (Rs)	Wages (Rs)
August	3,60,000	2,49,600	24,000
September	3,84,000	2,88,000	28,000
October	2,16,000	4,86,600	22,000
November	3,84,000	4,92,000	20,000
December	2,52,000	5,36,000	30,000

- (A) 50% of credit sales are realised in the month following the sales and remaining 50% in the second month following.
 (B) Creditors are paid in the month following of purchase.
 (C) Estimated Cash at Bank as on 1st October is ₹ 50,000.